

**टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल)**  
**(कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी)**  
**माल्पे, कर्नाटक**

सं./No. CSL/TSL/PROJ/HR/01/2021/G

दिनांक: 15 मार्च 2022

**टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) में कामगार के पदों में चयन**

**चयन परीक्षा की अनुसूची**

1. कृपया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) वेबसाइट [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) में प्रकाशित टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) में विविध पदों में चयन हेतु दिनांक 19 अप्रैल 2021 की रिक्ति अधिसूचना सं. सीएसएल/टीएसएल/ परि./मा.सं./01/2021 का संदर्भ लें।
2. रिक्ति अधिसूचना के खंड VI (a) के अनुसार, निम्नलिखित कामगार पदों के लिए चयन की विधि में निम्नानुसार परीक्षाएं शामिल हैं:

क्र.सं. SI No.	पद का नाम Name of posts	परीक्षा का प्रकार व अंक Type of tests & Marks
1	Draftsman (Mechanical-Hull)	Objective test : 50 Marks Practical/Skill test : 50 Marks
2	Draftsman (Mechanical-Machinery Outfit)	
3	Draftsman (Electrical)	
4	Junior Technical Assistant (Electrical)	Objective test : 50 Marks Descriptive test : 30 Marks Skill test : 20 Marks
5	Junior Technical Assistant (Mechanical)	
6	Assistant	

पदों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम रिक्ति अधिसूचना के साथ सीएसएल वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

3. प्रस्तुत प्रमाणपत्रों की प्रतियों के आधार पर, **निम्न सूचित पंजीकरण संख्यावाले उम्मीदवारों को पहचान सत्यापन और चयन परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से लघुसूचीगत किया जाता है।** पहचान सत्यापन, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा/ प्रायोगिक/ कौशल परीक्षा **दिनांक 25 मार्च 2022 को नीचे उल्लिखित स्थानों पर (रिपोर्टिंग समय : 0900 बजे)** आयोजित किया जाएगा।

क्र.सं. SI No	पद का नाम, ग्रेड व रिक्तियों की संख्या Name of Posts, Grade & No. of vacancies	अस्थायी रूप से लघुसूचीगत उम्मीदवारों की पंजीकरण संख्या Reg. Nos. of provisionally short- listed candidates	परीक्षा की तिथि व रिपोर्टिंग समय Date & Reporting Time for the tests	स्थान Place
1.	Draftsman (Mechanical- Hull) TW-3 1 post (UR)	50644283, 50644599	<b>25 Mar 2022 0900 Hrs</b>	MICE Upendra Baug, Near Kalpana Theater, Udupi Karnataka 576101
2.	Draftsman (Electrical) TW-3 1 post (UR)	50644528, 50644557, 50644705, 50644709, 50644864		
3.	Draftsman (Mechanical- Machinery Outfit) TW-3 1 post (UR)	50644381, 50644391, 50644395, 50644434, 50644440, 50644587, 50644597, 50644939, 50644947, 50644988, 50645017, 50645054		
4.	Junior Technical Assistant (Electrical) TW-3 1 post (UR)	No candidates shortlisted.		
5.	Junior Technical Assistant (Mechanical) TW-3 1 post (UR)	50643946, 50644300, 50644426, 50644497, 50644786, 50644813	<b>25 Mar 2022 0900 Hrs</b>	Tebma Shipyards Limited, Harbour Complex, Malpe, Udupi Karnataka 576108
6.	Assistant TW-2 2 posts (UR)	The Short listing/ Selection to the post of Assistant shall be conducted separately.		

4. लघुसूचीगत उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना है कि वे चयन परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा/ प्रायोगिक/ कौशल परीक्षा) के लिए प्रस्तुत होने से पहले दिनांक 19 अप्रैल 2021 की रिक्ति अधिसूचना सीएसएल/टीएसएल/ परि./मा.सं./01/2021 में विज्ञापितानुसार सभी पात्रता अपेक्षाएं यानी आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि पूरा करते हैं।
5. अस्थायी रूप में लघुसूचीगत उम्मीदवारों को चयन परीक्षा हेतु बुलावा पत्रों को ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आई डी में अलग से भेज दिया जाएगा। बुलावा पत्र प्राप्त न होने पर, यदि कोई हो, दिनांक 17 मार्च 2022 तक [tebmahr@tebma.co.in](mailto:tebmahr@tebma.co.in) में सूचित कर सकते हैं। कृपया नोट करें कि बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अन्य अनुदेश बुलावा पत्र में विस्तृत रूप से बताया गया है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले, वे बुलावा पत्र के सामान्य अनुदेशों को देखें।
6. उम्मीदवारों को बुलावा पत्र की दो प्रतियां लानी चाहिए, जिसमें हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाए गए हों और एक वैध फोटो पहचान प्रमाण (मूल में) हो। स्थान में सुरक्षित प्रवेश के लिए केवल सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट/

निर्वाचन पहचान कार्ड/ आधार/ ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार किया जाएगा। जो लोग बुलावा पत्र और वैध फोटो पहचान प्रमाण (मूल में) प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें चयन परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चयन परीक्षा के दौरान बुलावा पत्र की एक प्रति को प्रस्तुत करना होता है। चयन परीक्षा पूरा होने तक उम्मीदवारों को बुलावा पत्र की दूसरी कॉपी अपने पास रखनी चाहिए।

7. उम्मीदवारी अस्थायी है, जो नियुक्ति के समय या किसी अन्य स्थिति में आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के सबूत के प्रमाणपत्र सत्यापन के अधीन है। यदि किसी भी स्थिति में उपर्युक्त लघुसूचीगत उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या किसी भी स्थिति में उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठा / गलत पाया जाता है, तो उम्मीदवार को न तो लिए विचार किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द / अस्वीकार की जाएगी।
8. कोविड-19 महामारी की स्थिति के वर्तमान संदर्भ में, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे परिसर के अंदर रहते समय निम्न सूचितानुसार सभी सुरक्षा संबंधी अनुदेशों का पालन करें।
  - a) चयन परीक्षा में भाग लेनेवाले सभी उम्मीदवारों को रैपिड एंटीजन जांच या आरटीपीसीआर जांच (उन लोगों के लिए जो रोगसूचक हो और आंटीजन नेगटिव हो) करना है और चयन परीक्षा में भाग लेने के लिए नेगटिव टेस्ट रिसल्ट (48 घंटों के भीतर लिया गया) को प्रस्तुत करें।
  - b) उपरोक्त खंड उन उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होगा, जिन्होंने टीकाकरण प्रमाणपत्र जमा करने के अधीन, कोविड टीकाकरण की दो खुराक ली है। हालांकि जो रोगसूचक हैं, उन्हें उपरोक्त परीक्षाओं से गुजरना होगा और नेगटिव टेस्ट रिसल्ट देना होगा।
  - c) अंतर-राज्य/ अंतर-जिला यात्रा करनेवाले सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रियाओं में भाग लेने से पूर्व जिला प्रशासन/ सरकार/ आईसीएमआर के मौजूदा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
  - d) यह सलाह दी जाती है कि जहां तक संभव हो, भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन से दूर रहें। ऐसे परिवहन का उपयोग करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें और व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे मास्क, गोगिल्स, दस्ताने आदि पहनें और खाली हाथों से सतहों को छूने से बचें।
  - e) स्थान में प्रवेश पानेवाले सभी उम्मीदवार अपनी नाक, मुंह, गाल आदि ढंकते हुए उचित फेस मास्क पहनेंगे। उम्मीदवार द्वारा पहचान के लिए गेट पर मास्क को हटाया जाएगा। फेस मास्क न पहने उम्मीदवारों को सीएसएल में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - f) यार्ड में प्रवेश पानेवाले सभी उम्मीदवारों को गेटों, प्रवेश द्वार आदि में चिह्नित स्थानों पर खड़ा होना चाहिए ताकि इन स्थानों पर एक मीटर की सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके। प्रवेश/निकास के लिए गेटों में भीड़भाड़ के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - g) सभी उम्मीदवार, किसी भी खंभे, बार, हैंडरेल आदि को छूने से बचें।

- h) गेटों से प्रवेश करनेवाले सभी उम्मीदवारों को थर्मल स्कैनर के साथ अनिवार्य स्क्रीनिंग की जाएगी।
- i) मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और कतार प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- j) पॉजिटिव जांच परिणाम या श्वास संबंधी समस्याओं के साथ बुखार और खांसी पाए जानेवाले किसी भी उम्मीदवार को चयन परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रवेश / अनुमति नहीं दी जाएगी।
- k) सभी उम्मीदवार को अपनी मास्क/ वैयक्तिक सैनिटाइजर (50 मि.ली)/ पानी की बोतलें/ अन्य जलपान लाना चाहिए और व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचें।
- l) चयन प्रक्रिया के स्थान के अलावा सीएसएल के किसी भी अन्य क्षेत्रों/ भवनों/ कार्य स्थलों पर गमनागमन सख्त निषिद्ध है।
9. परीक्षा हॉल में कैमरा, मोबाइल फोन, माइक्रो फोन या कोई अन्य सहायक उपकरण, कैलक्यूलेटर, लॉग टेबल्स, पेजर, डिजिटल डायरी बुक्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दखल और उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित है। यदि कोई उम्मीदवार ऐसे उपकरणों / दस्तावेजों का दखल करता पाया गया तो, उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।
10. उम्मीदवार जो परीक्षा हॉल में कदाचार में लगे हुए पाए जाते हैं या निरीक्षक के निदेशों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
11. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परीक्षाओं के लिए उपरोक्त उल्लिखित तिथि और रिपोर्टिंग समय पर रिपोर्ट करें।
12. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि चयन परीक्षाओं से संबंधित सभी अद्यतन के लिए सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ) लगातार देखें।
13. कृपया यह नोट करें कि चयन परीक्षा की तिथि, स्थान या समय के बदलाव के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. टीएसएल किसी भी अरोक / प्रशासनिक कारणों के कारण निर्धारित तिथि या बाद की तारीख में चयन परीक्षा को बढ़ाने का अधिकार रखता है, और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि तदनुसार योजना बनाएं।
15. अयोग्यता के मामले में आवेदन अस्वीकार करने के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
16. बुलावा पत्र अस्थायी है और नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और केवल चयन परीक्षाओं में भाग लेने से उम्मीदवार टीएसएल में रोज़गार के लिए किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
17. अनुसूची में कोई परिवर्तन है तो केवल सीएसएल वेबसाइट में अधिसूचित किया जाएगा।

18. दिनांक 19 अप्रैल 2021 के रिक्ति अधिसूचना सं. सीएसएल/टीएसएल/ परि./ मा.सं./01/2021 के अन्य नियम व शर्तें लागू होंगे।

19. कोई अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हमें ई-मेल [tebmahr@tebma.co.in](mailto:tebmahr@tebma.co.in) के ज़रिए संपर्क करें।

**“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”**

Sd/-  
सहायक प्रबंधक (मा.सं.), टीएसएल